

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazetteएस.जी.-डी.एल.-अ.-03122024-259129
SG-DL-E-03122024-259129असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316]	दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 2, 2024/अग्रहायण 11, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 282
No. 316]	DELHI, MONDAY, DECEMBER 2, 2024/AGRAHAYANA 11, 1946	[N. C. T. D. No. 282

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 नवम्बर, 2024

एफ-13(571)/UD/LB-I/Constitute of Committee/2024/4146.—जमानत आवेदन सख्या 3089/2024 एवं अन्य के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की दिनांक 13.09.2024 के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिल्ली में सभी कोचिंग सेंटरों की लेखा परीक्षा/निरीक्षण के संचालन के लिए एक समिति को नियुक्त करते हैं। समिति में निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित किया गया है

- | | |
|--|----------|
| (i) व्यायमूर्ति आर.के. गोबा, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश | -अध्यक्ष |
| (ii) अपर आयुक्त, अभियांत्रिकी विभाग, दिल्ली नगरनिगम | - सदस्य |
| (iii) आयुक्त (योजना), डीवीए | - सदस्य |
| (iv) . जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर, राजस्वविभाग, राष्ट्रीयराजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार- | सदस्य |

- (v) श्री अतुल कुमार, क्षेत्रीयप्रमुख (भौतिकीवाला)-सदस्य
 (vi). श्री आशुतोष सिंह, प्रशासनप्रमुख, श्रीरामआईएएस-
 (vii.) श्री विकास दिव्यकीर्ति, एमडी, दृष्टि, आईएएस
 (viii). विशेष सचिव, शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार -सदस्य सचिव

कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधि

समिति के अध्यक्ष को 150000/- रुपये के पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा, जिसका वहन सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा समिति को अपेक्षित सचिवीय एवं लॉजिस्टिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, समिति तीन माह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एस. एम अली, विशेष सचिव-I

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 26th November, 2024

F. 13(571)/UD/LB-I/Constitute of Committee/2024/4146.—In pursuance of the direction dated 13.09.2024 of Hon'ble High Court, Delhi in Bail Application No: 3089 /2024 &Ors. the Lt. Governor of Delhi, is pleased to appoint a committee to conduct audit/inspection of all coaching centers in Delhi in accordance the directions of Hon'ble High Court of Delhi. The following persons are nominated in the committee:-

- | | | |
|--------|--|--|
| (i) | Justice R.K. Gauba, Former Judge of the Delhi High Court | - Chairman |
| (ii) | Additional Commissioner, Engineering Department, MCD | - Member |
| (iii) | Commissioner (Planning), DDA- | Member |
| (iv) | District Magistrate, North, Revenue Department, GNCTD | - Member |
| (V) | Sh. Atul Kumar, Regional Head (Physics Wallah) - | Representatives From Coaching Institutes |
| (vi). | Sh. Ashutosh Singh, Admin Head, Sriram IAS- | |
| (vii) | Sh. VikasDivyakirti, MD. Drishti, IAS- | |
| (viii) | Special Secretary, UD Department, GNCTD- | - Member Secretary |

The chairman of the committee shall be paid remuneration of Rs. 150000/- to be borne by General Administration Department, GNCTD. The requisite secretarial & logistic support shall also be provided to the Committee by the General Administration Department, GNCTD. Further, as directed by the Hon'ble Delhi High Court, the committee shall submit its report within three months.

By Order and in the Name of the Lt. Governor

of the National Capital Territory of Delhi,

S. M. ALI, Special Secy.-I